

जाटी  
31/07/2004

समयबद्ध / महत्वपूर्ण


उत्तरांचल शासन  
राज्य पुनर्गठन विभाग

संख्या: 372/रा0पु0/XXXVII/04/2001  
देहरादून:दिनांक: 31 जुलाई, 2004

अपर मुख्य सचिव,  
समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,  
उत्तरांचल शासन ।


मुख्य सचिव द्वारा आज दिनांक 31-07-2004 को पुनर्गठन सम्बन्धी समीक्षा बैठक ली गई है । बैठक में यह आदेश दिये गये कि विभिन्न विभागों द्वारा उत्तर प्रदेश के विकल्पधारी कार्मिकों को अवमुक्त करने से पूर्व सम्बन्धित पत्रावली प्रमुख सचिव, पुनर्गठन, उत्तरांचल शासन के अवलोकनार्थ भेजा जाना सुनिश्चित किया जायेगा ।

अतः कृपया तदनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।

  
(हेमलता दौडियाल)  
अपर सचिव, *ae*

प्रतिलिपि:

- 1- निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित ।
- 2- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, पुनर्गठन को प्रमुख सचिव महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित ।

  
(हेमलता दौडियाल)  
अपर सचिव *ae*